



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 500]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

No. 500]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

स.का.नि. 708(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 (1992 का 35) की धारा 156 की उप-धारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के पैरा चिकित्सीय काडर समूह 'ख' पद के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, पैरा चिकित्सीय काडर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 है।
- लागू होना.**—इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर यह नियम लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति —

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- चिकित्सक दृष्ट्या योग्यता.**—इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, सिर्फ ऐसे व्यक्ति जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, चिकित्सीय मेन्चुअल खण्ड III में यथा विनिर्दिष्ट चिकित्सीय प्रवर्ग श्रेण-1 में है, वो ही इन नियमों के उपबंधों के अधीन नियुक्ति और प्रोन्नति जिसमें प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति या पुर्नियोजन के पात्र होंगे।

7. **भारत के नागरिक न होने वाले व्यक्तियों का पात्र न होना.**—ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं, उनको लेखबद्ध केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय इन नियमों के अधीन नियुक्त नहीं किया जाएगा। परन्तु यह कि इस नियम में अंतर्विष्ट कोई बात, बल में नेपाल या भूटान के किसी प्रजा की नियुक्ति या नियोजन को नहीं रोकेंगी।

8. **अधिवर्षिता.**—(1) इन नियमों के अधीन नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति उस माह के अंतिम दिन को अपरान्ह में सेवा से निवृत्त हो जाएगा जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु पूर्ण करता/करती है, या जैसा समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसा व्यक्ति जिसकी जन्म तारीख, माह के प्रथम दिन होती है वो अधिवर्षिता की आयु पूर्ण करने के पूर्ववर्ती माह के अंतिम दिन अपरान्ह सेवा निवृत्त हो जाएगा।

(2) किसी भी व्यक्ति को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत्ति की विहित आयु से आगे सेवा में विस्तार नहीं दिया जाएगा।

9. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बावत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

10. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. निरीक्षक (आहारविद)	01* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4600 रु.	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।

(6)

30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 05 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)

टिप्पण :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(7)	(8)
<p>1. शैक्षिक अर्हता :</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आहार विज्ञान या पोषण या गृह विज्ञान या पोषण के साथ गृह शिक्षा, गृह अर्थ शास्त्र में मास्टर की डिग्री</p> <p>या</p> <p>किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोषण एक विशिष्ट विषय के साथ बी.एस.सी. (गृह विज्ञान या गृह अर्थ शास्त्र) के साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आहार विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा और किसी अस्पताल के आहार विज्ञान विभाग में एक वर्ष का कार्य अनुभव।</p> <p>2. पुरुष और महिला के लिए शारीरिक मानदण्ड</p> <p>लम्बाई: पुरुषों के लिए 170 से0मी0 और महिलाओं के लिए 157 से0मी0</p>	लागू नहीं होता

<p>शिथिलता: पुरुष महिला</p> <p>गढवाली, कुमाउनी, गोरखा, डोगरा, 165 से.मी. 155 से.मी.</p> <p>मराठा की श्रेणी में आने वाले</p> <p>अभ्यर्थी और असम, हिमाचल प्रदेश और</p> <p>जम्मू-काश्मीर के रहने वाले</p> <p>अभ्यर्थियों के लिए।</p> <p>अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, 162.5 से.मी. 152.2 से.मी.</p> <p>मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और</p> <p>त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने</p> <p>वाले अभ्यर्थियों के लिए।</p> <p>उपरोक्त में वर्णित के उत्तर पूर्वी 160 से.मी. 147.5 से.मी.</p> <p>राज्यों और वाम पक्ष चरम पंथ से</p> <p>प्रभावित जिला में रहने वाले अनुसूचित</p> <p>जनजाति के सभी अभ्यर्थियों के लिए।</p> <p>उत्तर पूर्वी राज्यों और वाम पक्ष 162.5 से.मी. 150 से.मी.</p> <p>चरम पंथ से प्रभावित जिला में रहने</p> <p>वाले से भिन्न अनुसूचित जनजाति के</p> <p>अभ्यर्थियों के लिए।</p> <p>सीना (पुरुषों के लिए)</p> <p>सधारण उत्तर पूर्वी राज्यों सभी राज्यों/संघ राज्य</p> <p>से भिन्न पहाड़ी क्षेत्रों के अनुसूचित</p> <p>क्षेत्रों में रहने जन जाति</p> <p>वाले व्यक्ति</p> <p>बिना फुलाए 80 से.मी. 78 से.मी. 76 से.मी.</p> <p>फुलाए 85 से.मी. 83 से.मी. 81 से.मी.</p> <p>अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों में रहने वाले अभ्यर्थियों के लिए</p> <p>बिना फुलाए 77 से.मी.</p> <p>फुलाए 82 से.मी.</p> <p>सीना (महिलाओं के लिए) : लागू नहीं होता</p> <p>भार : चिकित्सीय मानक के अनुसार लम्बाई और आयु के अनुपातिक ।</p> <p>टिप्पण : महानिदेशक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, कारण लेखबद्ध करके, विशेष व्यवस्था के रूप में सुयोग्य मामलों में शारीरिक मानदण्डों को शिथिल कर सकते हैं।</p> <p>3. चिकित्सीय मानदण्ड :</p> <p>(क) दृष्टि : न्यूनतम दूरस्त दृष्टि चश्मा पहने बगैर दोनों आंखों में 6/6 और 6/9 होना चाहिए।</p> <p>(ख) अभ्यर्थियों को घुटने मिलने, सपाट पंजे, वेरिकोस वैन या आंखों में तिरछेपन से पीड़ित नहीं होना चाहिए तथा उच्च वर्ण दृष्टि होनी चाहिए। उनका अच्छा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य होना चाहिए और उन्हें किसी भी शारीरिक कमी, जिससे कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में समस्या हो, से मुक्त होना चाहिए।</p>	
---	--

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(9)	(10)
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा। पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिनियुक्ति/पुनःनियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति द्वारा:-

केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के ऐसे अधिकारी:-

(i) (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

(ख) जो वेतन बैंड-2: 9300-34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. की ग्रेड पर पांच वर्ष की नियमित सेवा कर चुके हैं।

(ii) जो सीधी भर्ती के लिए विहित अपेक्षित अर्हता और अनुभव रखते हों।

टिप्पण-1:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण-2:- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी।

भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति और पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अनुभव और अर्हताएं हैं। यदि चयनित हो जाते हैं तो, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है; तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(12)

(13)

समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

लागू नहीं होता।

1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) — अध्यक्ष
या महानिरीक्षक, भारत तिब्बत
सीमा पुलिस बल
2. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या — सदस्य
मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी)
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) — सदस्य
या कमांडेन्ट
भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. उप-निरीक्षक (भौतिक चिकित्सक)	02* (2016) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड-2 (9300-34800 रु.) और ग्रेड वेतन 4200 रु.	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा।

(6)

लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।
(7)	(8)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)
प्रोन्नत किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।	(i) 50% प्रोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा और (ii) 50% प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
<p>प्रोन्नति द्वारा:—</p> <p>ऐसे सहायक उप-निरीक्षक (भौतिक चिकित्सक) जिन्होंने उस श्रेणी में छः वर्ष की नियमित सेवा की हो और पूर्व प्रोन्नति पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो।</p> <p>टिप्पण :—जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p> <p>प्रतिनियुक्ति द्वारा:—</p> <p>केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के विभागों के ऐसे अधिकारी:—</p> <p>(i) (क) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>(ख) जो वेतन बैंड-1: 5200-20200 रु. और ग्रेड वेतन 2800 रु. की ग्रेड में छः वर्ष से नियमित सेवा के पद धारण किए हुए हैं।</p> <p>(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से भौतिक चिकित्सा में बैचलर की डिग्री स्नातक या डिप्लोमा रखते हो।</p> <p>टिप्पण-1:— प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 52 वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण-2:— प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 01 जनवरी 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी।</p> <p><u>भूतपूर्व सैनिकों के लिए : प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन</u></p> <p>सशस्त्र बल के ऐसे कर्मियों के संबंध में विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास यथा विहित अनुभव और अर्हताएं हैं, यदि चयनित हो जाते हैं तो, ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।</p>

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:—	लागू नहीं होता।
1. महानिरीक्षक (चिकित्सा) — अध्यक्ष या महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	

2. उप महानिरीक्षक (चिकित्सा) या मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	
3. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (चयन श्रेणी) – सदस्य या कमांडेन्ट भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल	

[फा. सं. II-12013/02/2016/संगठन]

हरीश चन्द्र, निदेशक (कार्मिक-1)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2016

G.S.R. 708(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of section 156 of the Indo-Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Para Medical Cadre, Group 'B' posts of the Indo-Tibetan Border Police Force, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Indo-Tibetan Border Police Force, Para Medical Cadre (Group 'B' Posts) Recruitment Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.—The number of said posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age limit, other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Medical Fitness.—Notwithstanding anything contained in these rules, only those persons who are in medical category SHAPE-I, as specified in the Indo-Tibetan Border Police Force, Medical Manual Volume-III, shall be eligible for appointment and promotion including appointment by deputation or re-employment under the provisions of these rules.

7. Ineligibility of non citizens of India.—No person who is not a citizen of India shall, except with the prior permission of the Central Government in writing, be appointed under these rules:

Provided that nothing contained in this rule shall debar the appointment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

8. Superannuation.—(1) Every person appointed under these rules shall retire from service on the afternoon of the last day of month in which he or she attains the age of fifty-seven years or as prescribed by the Central Government from time to time:

Provided that the person whose date of birth is the first day of a month shall retire from service on the afternoon of the last day of the preceding month on attaining the age of superannuation.

(2) No person shall be granted extension in service beyond the prescribed age of retirement on superannuation.

9. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

10. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Inspector (Dietician)	01* (2016) ** Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non – Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-2, (Rs. 9300-34800) and Grade Pay Rs. 4600	Not applicable.

Age limit for direct recruits																	
(6)																	
Not exceeding 30 years (relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).																	
Note. -The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, the Union territory of Andaman and Nicobar Islands or the Union territory of Lakshadweep).																	
Education and other qualifications required for direct recruits		Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees															
(7)		(8)															
<div>1. Educational qualifications:</div> <div>Master’s Degree in Dietetics or Nutrition or in Home Science or Home Education, Home Economics with Nutrition as a subject from a recognised University;</div> <div>Or</div> <div>B.Sc (Home Science or Home Economics) with Nutrition as a special subject from a recognised University with Post Graduate Diploma in Dietetics from a recognised Institution and one year practical experience in the Dietetics Department of a Hospital.</div> <div>2. Physical Standard for male and female:</div> <div>Height : 170 cms for male and 157 cms for female</div> <div>Relaxation:</div> <table><thead><tr><th></th><th>For Male</th><th>For Female</th></tr></thead><tbody><tr><td>Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.</td><td>165 cms</td><td>155 cms</td></tr><tr><td>candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.</td><td>162.5 cms</td><td>152.5 cms</td></tr><tr><td>All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.</td><td>160 cms</td><td>147.5 cms</td></tr><tr><td>All candidates belonging to the Schedule Tribes</td><td>162.5 cms</td><td>150 cms</td></tr></tbody></table>			For Male	For Female	Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms	candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms	All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms	All candidates belonging to the Schedule Tribes	162.5 cms	150 cms	Not applicable.
	For Male	For Female															
Candidates falling in the categories of Garhwalis, Kumaonis, Gorkhas, Dogras, Marathas and candidates belonging to the State of Assam, Himachal Pradesh and Jammu and Kashmir.	165 cms	155 cms															
candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.	162.5 cms	152.5 cms															
All candidates belonging to the Schedule Tribes hailing from the North-Eastern States as above and the Left Wing Extremism affected Districts.	160 cms	147.5 cms															
All candidates belonging to the Schedule Tribes	162.5 cms	150 cms															

other than North-Eastern States and the Left Wing Extremism affected Districts.			
Chest (for male):			
	General	Men belonging to hill areas other than North Eastern States	Tribals of all States/ Union Territories
Unexpanded	80 cms	78 cms	76 cms
(Expanded)	85 cms	83 cms	81 cms
Candidates hailing from North-Eastern States of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim and Tripura.			
Unexpanded	77 cms		
(Expanded)	82 cms		
Chest (for female): Not applicable			
Weight: Proportionate to height and age as per medical standards.			
Note: The Director General, Indo-Tibetan Border Police may, for reasons to be recorded in writing, relax the physical standards as a special dispensation in deserving cases.			
3. Medical Standards:			
(a) Vision : Minimum distant vision should be 6/6 and 6/9 of both eyes without correction (i.e. without wearing glasses).			
(b) candidates must not suffer from knock knees, flat foot, varicose veins or squint in the eyes and should possess high colour vision. They must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of duties.			
4. Must qualify the Physical efficiency test and written test.			

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for direct recruit.	By deputation failing which by direct recruitment. For ex-servicemen. Deputation/re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption in the grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.
(11)
By deputation: Officers in the Central Government or State Government or Union Territories Departments:- i) (a) holding analogous posts on regular basis; (b) holding post in the Pay Band-2: Rs. 9300-34800 plus Grade pay Rs-4200/- with five years regular service in the grade; and ii) having the requisite experience and qualifications prescribed for direct recruitment. Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: Deputation/re-employment :

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms up to the date on which they are due for release from the Armed Forces, thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of : 1. Inspector General (Medical) or - Chairman, Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force 2. Deputy Inspector General (Medical) or - Member, Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force 3. Chief Medical Officer (Selection Grade) or - Member. Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

Name of the post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Sub-Inspector (Physiotherapist)	02* (2016) ** Subject to variation dependent on work load	General Central Service, Group 'B', Non -Gazetted, Non-Ministerial (Combatised)	Pay Band-2, (Rs. 9300-34800) and Grade Pay Rs. 4200	Not applicable.

Age limit for direct recruits
(6)
Not applicable.

Education and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)	(8)
Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(9)	(10)
Two years for promotes.	(i) 50% by promotion failing which by deputation and (ii) 50% by deputation/absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, the grade from which promotion or deputation/ absorption is to be made.

(11)

By Promotion:

From amongst Assistant Sub-Inspector (Physiotherapist) who have rendered six years regular service in the grade and have successfully completed pre-promotional course or courses as prescribed.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

By deputation:

Officers in the Central Government or State Government or Union Territories Departments:-

(a) holding analogous posts on regular basis;

(b) holding post in the Pay Band-1: Rs. 5200-20200 plus Grade pay Rs. 2800/- with six years regular service in the grade; and

having Bachelor's Degree or Diploma in Physiotherapy from an Institution recognized by the Central Government or State Government.

Note 1: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty-two years as on the closing date of receipt of application.

Note 2: For the purpose of appointment on deputation basis the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2006 (the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Commission.

For Ex-servicemen: (Deputation/re-employment):

The Armed Force personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed, if any, shall also be considered and if selected such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Force, thereafter they may be continued on re-employment.

If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'B' Departmental Promotion Committee consisting of : 1. Inspector General (Medical) or - Chairman, Inspector General Indo-Tibetan Border Police Force	Not applicable.

2. Deputy Inspector General (Medical) or Chief Medical Officer (Selection Grade) Indo-Tibetan Border Police Force	- Member,	
3. Chief Medical Officer (Selection Grade) or Commandant, Indo-Tibetan Border Police Force	- Member	

[F. No. II-12013/02/2016-Org.]

HARISH CHANDER, Director (Pers-I)